

HINDI

9687/05

Paper 5 Prose

October/November 2014

45 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

**READ THESE INSTRUCTIONS FIRST**

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.  
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.  
Write in dark blue or black pen.  
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.  
**DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.**

Translate the passage overleaf into **Hindi**.  
Dictionaries are **not** permitted.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.  
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

**उत्तर लिखने के पहले इन निर्देशों को पढ़िए:**

यदि आपको उत्तर-पुस्तिका दी गयी है तो उसके मुख पृष्ठ पर लिखे हुए निर्देशों का अनुसरण कीजिए।  
परीक्षा के लिए जो भी आप काम दें उस पर अपना केंद्र-संख्या, छात्र-संख्या और नाम लिखें।  
गहरी नीली या काली स्याही वाली कलम से ही लिखें।  
स्टेपलर, पेपर-क्लिप, गोंद या करेक्शन फ्लुइड का प्रयोग न करें।  
किसी बारकोड में न लिखें।

अगले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेद का अनुवाद हिन्दी में कीजिए।  
शब्दकोश का प्रयोग मना है।

परीक्षा के अन्त में सभी पृष्ठों को एक साथ धागे से बाँध दें।  
हर प्रश्न या प्रश्न-खण्ड के अन्त में कोष्ठक [ ] के अन्दर उस प्रश्न के अंक लिखे हुए हैं।

This document consists of 2 printed pages.

**Translate into Hindi**

Now that I have a new job, my daily routine has changed. I used to sleep until noon, have a long lunch and then walk slowly to the supermarket where I worked. Nowadays, I wake up at six in the morning, have a quick breakfast and then go to the swimming pool for an hour. My priority is to maintain good health. I believe that in order to achieve this, regular exercise is essential.

After my swim, I cycle to my office, where I work as an assistant manager of a big company. My main role is to attend to customer complaints. My manager, who trained me for this job, reminds me of my mother. She is calm and kind and I try to be like her with our clients. They can be quite demanding sometimes, finding faults with everything. Whether a complaint is genuine or totally baseless, it is important that I reply politely.

In the evening, on my journey home, I feel physically and mentally exhausted. When I get home, I listen to some classical music and meditate for half an hour. This always helps me to relax and I know that I will wake up refreshed in the morning.

[40]